



सड़कों पर पार्किंग, खेल के मैदान और शारीरिक दूरी: सिटी, कोविड-19 के दौरान निवासियों को बाइ-लॉ याद दिला रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (30 जून, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, निवासियों को याद दिलाती है कि पूरा साल, निम्नलिखित बाइ-लॉ को महत्वपूर्ण समझें। बाइ-लॉ, साफ-सुथरे और सुरक्षित शहर को कायम रखने के लिए जरूरी हैं। हर ब्रैम्पटन निवासी इन मानकों (स्टैंडर्ड्स) को कायम रखने में भूमिका निभा सकता है।

ब्रैम्पटन के निवासियों के याद दिलाया जाता है कि हालांकि पील रीजन (Peel Region) अब स्टज 2 की ओर बढ़ चुका है, परंतु नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर, [ब्रैम्पटन कोविड-19 एमरजेंसी मेजर्स बाइ-लॉ \(Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law\)](#) के अंतर्गत, उल्लंघन के हर अपराध के लिए कम से कम \$500 का और अधिकतम \$100,000 तक का जुर्माना, या प्रांतीय एमरजेंसी मैनेजमेंट एंड सिविल प्रोटेक्शन एक्ट (ई.एम.सी.पी.ए.) (Emergency Management and Civil Protection Act) (EMCPA) के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने सिटी के अन्य महत्वपूर्ण बाइ-लॉ के अंतर्गत भी जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि वे उनका पालन नहीं करते हैं।

सिटी में सड़कों पर पार्किंग

स्टाफ, जुलाई में सिटी के [ट्रैफिक और पार्किंग संबंधी बाइ-लॉ \(Traffic and Parking By-law\)](#) के अंतर्गत, उल्लंघनों के विरुद्ध दुबारा जुर्माने लागू करना शुरू करेगा, जिन्हें कोविड-19 (COVID-19) महामारी के कारण, अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया था। सोमवार, 6 जुलाई, 2020 को, पूरी रात की पार्किंग के लिए, बाइ-लॉ को दुबारा लागू करना शुरू किया जाएगा। सिटी के ट्रैफिक और पार्किंग संबंधी बाइ-लॉ के अंतर्गत, रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में, सड़कों पर वाहनों की पार्किंग नहीं की जा सकती। सोमवार, 6 जुलाई, 2020 को, तीन घंटे के पार्किंग उल्लंघन के विरुद्ध जुर्माने दुबारा शुरू किए जाएंगे। बाइ-लॉ के अंतर्गत, एक ही समय पर, तीन घंटे से अधिक समय तक, सड़कों पर वाहनों की पार्किंग नहीं की जा सकती।

पार्किंग के बारे में विचार करने के लिए आवेदन, लगातार ऑनलाइन या 311 पर फोन करके उपलब्ध हैं। जिन वाहनों को 6 जुलाई, 2020 के बाद सड़क पर पार्किंग की आवश्यकता हो, उनके लिए सिटी की [वेबसाइट \(website\)](#) पर एक आवेदन-पत्र उपलब्ध है। वैकल्पिक तौर पर, पगडंडी और सड़क के बीच वाले रास्ते की, बुलेवार्ड वाली जगह पर वाहनों की पार्किंग की जा सकती है।

निरीक्षण के लिए निजी प्रॉपर्टी पर जुर्माना और नोटिस जारी करने के लिए जिम्मेदार प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां, सुलभ पार्किंग संबंधी उल्लंघन के लिए कानून लागू करने और फायर रूट लागू करने के अलावा, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर पार्किंग करने (Park on Private Property) के अपराध के लिए भी दुबारा बाइ-लॉ लागू करना शुरू करेंगी।

पार्कों का उपयोग

हालांकि सिटी के पार्क अब खुल गए हैं, फिर भी निवासियों को याद दिलाया जाता है कि स्टेज 2 के अंतर्गत, निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बचाव के लिए, सभी खेल के मैदान और खेलने के उपकरण, आउटडोर फिटनेस उपकरण और पीने के पानी की प्रणालियां बंद रहेंगी।

शारीरिक दूरी

जैसे कि निवासी गर्मी के मौसम में आनंद लेने के लिए, लगातार बाहर जा रहे हैं, तो सिटी उन्हें याद दिलाती है कि वे शारीरिक दूरी कायम रखने को महत्वपूर्ण समझें। हर किसी के लिए, अपने [सामाजिक दायरे \(social circle\)](#) से बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति से 2.0 मीटर की दूरी कायम रखना जरूरी है। ई.एम.सी.पी.ए. (EMCPA) के अंतर्गत, दस से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी पाबंदी है।

निवासियों से अनुरोध है कि यदि वे दस से अधिक लोगों को एक साथ देखें या कारोबारियों को शारीरिक दूरी का पालन न करते हुए देखें, तो इसकी रिपोर्ट करने के लिए 311 पर फोन करें।

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, समुदाय को सहयोग करने के सिटी के प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं या @CityBrampton को Twitter, Facebook और Instagram पर फॉलो करें। सिटी के बाइ-लॉ के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca